Oracle Credit Limited

(CIN: L65910DL1991PLC043281)
Regd. Office: P-7, Green Park Extension, New Delhi-110016
E mail: oracle_credit@yahoo.co.in, info@oraclecredit.co.in
Website: www.oraclecredit.co.in
Tel: 011-26167775



Date: September 03, 2021

Ref. No.: OCL/2021-22/302

To, Listing Operations BSE Ltd Phiroze Jeejeebhoy Towers Dalal Street Mumbai- 400001

Scrip Code: 539598

Sub: Newspaper publication of Notice of 31st Annual General Meeting through VC/OAVM

Dear Sir/ Madam,

Pursuant to the provisions of Regulation 30 read with **SEBI** Circular SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated 12.05.2020 and the provisions of the Companies Act, 2013 read with General Circular Nos. 14/2020, 17/2020, 20/2020 and 02/2021 dated 08.04.2020, 13.04.2020, 05.05.2020 and 13.01.2021 respectively issued by the Ministry of Corporate Affairs (collectively referred to as the "MCA Circulars"), please find enclosed herewith the copy of newspaper publication of Notice of convening 31st Annual General Meeting through VC/OAVM, published in Financial Express (English Edition) and Jansatta (Hindi Edition) on September 03, 2021.

This is for your information and records.

Thanking You Yours faithfully,

For Oracle Credit Limited

Vineeta Gautam Company Secretary & Compliance officer

Encl: As above

FINANCIAL EXPRESS

Indian Bank BRANCH: SECTOR-63, NOIDA

It is hereby notified to the public at large that below mentioned Borrower (M/s Stalwart Pharma) had availed loan from Indian Bank Sector-63, Noida and due to default in repayment the accounts have been classified as NPA. The said Borrower has been declared as Wilful Defaulter by the Bank as per RBI guidelines. The Bank has initiated recovery proceedings against them. Hence, the Public is hereby cautioned not to deal with any of the properties of the said Borrower/Guarantor/Co-obligant/Mortgagor.

Borrower/ Proprietor Borrower: Mr. Parul Kaushik Add.: House No- 343, Sarfabad, Dadri. GB Nagar, UP.

Name & Address of Borrower/ Proprietor Balance Ouustanding 6487065302 27.07.2021 Amount Dues: As On 27.07.2021 Total - 23,96,034.56 (Twenty Three Lakh Ninety Six Thousand Thirty four Rupees and Fifty Six Paisa) Place: Sector-63, Noida

Photograph of Wilful Defaulter 25 Mr. Parul Kaushil

Fourty Six Rupees and Fourty Nine Paisa) Place: Sector-63, Noida यूनियन बैंक 🕼 Union Bank

इंडियन बैंक

Borrower:

Ms. Swati

Semriwal

House No- 343,

Sarfabad, Dadri,

GB Nagar, UP.

ASSET RECOVERY BRANCH 26/28-D. Connaught Place, New Delhi-110001 (Working at M-35, First Floor, Outer Circle Connaught Place, New Delhi - 110 001)

Photograph of Wilful Defaulter

帝 海

Ms. Swati Semriwal

Indian Bank BRANCH: SECTOR-63, NOIDA

It is hereby notified to the public at large that below mentioned

Borrower (M/s Stalwart Pharma) had availed loan from Indian Bank,

Sector-63, Noida and due to default in repayment the accounts have

been classified as NPA. The said Borrower has been declared as

Wilful Defaulter by the Bank as per RBI guidelines. The Bank has

initiated recovery proceedings against them. Hence, the Public is

hereby cautioned not to deal with any of the properties of the said

Balance Ouustanding

6487064912

27.07.2021

Amount Dues: As On

27.07.2021

Total - 3000146.49

Thirty Lakh One Hundred

Borrower/Guarantor/Co-obligant/Mortgagor.

ame & Address of A/c Nos./NPA Date

POSSESSION NOTICE [Under Rule 8(1) of Security Interest (Enforcement) Rules, 2002] Whereas, the undersigned being the authorized officer of Union Bank of India, Asset Recovery Branch situated at 26/28-D, Connaught Place New Delhi-110001 (working at M-35, Ist floor, Connaught Place, New Delhi) under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement Security Interest Act, 2002 (Act No. 54 of 2002) and in exercise of powers conferred under Section 13(12) read with rule 3 or the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued a demand notice dated 11.12.2014 calling upon the borrower M/s Takshila Retail Pvt. Ltd. through its Managing Director / Guarantor, Sh. Dinesh Sehgal to repay the amount mentioned in the notice being Rs. 31,11,68,858.81 (Rs Thirty One Crore Eleven Lacs Sixty Eight Thousand Eight Hundred Fifty Eight and Paisa Eighty One Only) and interest from 01.12.2014 within 60 days from the date of receipt of the said notice.

The borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower and the public in general that the undersigned has taken symbolic possession of the properties described herein below in exercise of powers conferred on him/her under Section 13(4) of the said Act read with rule 8 of the said rules on this day i.e. 31.08.2021.

The borrower in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of Union Bank of India, 26/28-D, Connaught Place New Delhi-110001 for an amount Rs. 31,11,68,858.81 (Rs Thirty one crore eleven lacs sixty eight thousand eight hundred fifty eight and paisa eighty one only) and interest from 01.12.2014.

The borrower's attention is invited to provisions of sub-section (8) of section 13of the Act, in respect of time available to the borrower to redeem the secured assets

DESCRIPTION OF THE PROPERTY

1. Commercial property being Rear side portion at first Floor situated at property no. G-8, South Extension I, New Delhi-110049 mortgage by Sh. Dinesh Sehgal admsg 450 sq.ft.

Commercial property being rear side portion at second floor situated at G-8, South Extension-I, New Delhi-110049 mortgage by Smt. Harsh Sehgal admsg 450 sq.ft.

Authorised Officer, UNION BANK OF INDIA Date: 31-08-2021 Place: Delhi

Demand Notice

u/s 13(2) on 24.07.2021

for **Rs. 15,48,496.50**

interest & other charges.

The Notice was sent to

you by Registered post

returned undelivered.

Due Amount

Due Amount

as on 1.07.2021

15,48,496.50

+ interest &

other Charges

& Legal Exp.

Due Amount

as on

04.08.2021

16,44,372.00

+ interest &

other Charges

& Legal Exp.

Rs.

as on

being an Authorised Officer of the Secured Creditor Bank has a reason to believe that all of you the under mentioned notices cannot be served ordinarily as attempted earlier except through this substituted service. As such, all of you the under mentioned notices are hereby informed and called upon through this public DEMAND NOTICE under section 13(2) of the SARFAESI Act with rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rule 2002 make payment of the amounts due against each of you, as mentioned below, within 60 days, the bank will proceed U/s 13 (4) of the said Act for taking possession of the secured property/ies/Assets mentioned against account and thereafter to sell the same to realize its dues with further interest till realization along with costs as contemplated under the said Act. Needless to mentioned here that this notice is addressed to you without prejudice to any other remedy available to bank for recovery of its dues, against you. The borrower's attention is invited to provisions of sub section (8) of section 13 of the Act, in respect of time

S. No.	Name of the Borrower/Guarantor	
1.	Branch: Ahmedpur, Haridwar	A
	Borrower: Sh. Zubair Alam S/o Sh. Noor	Wes
	Mohammad R/o H.No 178, Ahabab Nagar,	Fee
	Jwalapur - 249407, Haridwar, Uttarakhand	Squa
	Mob. No. 9837679786	Havi
	Guarantor: 1. Sh. Sanjiv Sahu S/o Sh. M.N.	Kait
	Sahu R/o Mohalla-Maliyan, Jwalapur-249407,	Hari
	Haridwar, Uttarakhand, Mob. No. 8430415458	Bou
	Guarantor: 2. Sh. Javed Alam S/o Noor	Part
	Mohammad R/o H.No178, Ahabab Nagar,	and
	ll	NIA 1

Mob. No. 9897511812 Branch: Landhaura, Haridwar

Haridwar-247667, Uttarakhand.

Branch: Kankhal, Haridwar

249403, Uttarakhand

Registrar Haridwar

Branch: Ahmedpur Haridwar

5. Branch: Sultanpur Haridwar

6. Branch: Sultanpur Haridwar

Branch: Shantikunj, Haridwar

Branch: Shantikunj, Haridwar

Date: 02.09.2021

University, Tehsil & Distt. Haridar, Uttarakhand

Kumar S/o Late Sh. Kailash Chand, R/o H.No.-22, HSCL, Ranipur, Haridwar-249403, Uttarakhand.

Borrower: Smt. Sanyogita W/o Sh. Raj Kumar

Uttarakhand. Guarantor 1: Sh. Mukesh S/o Sh.

Nehandpur, Tehsil Laksar, Distt. Haridwar (UK)

On Plot Measuring in East-150 Feet, West-150 Feet, North - SARFAESI Notice issued

for **Rs. 16,44,372.00** The Notice was sent to you by Registered post returned undelivered.

Due Amount as on 04.08.2021 14,31,288,70 + interest &

2- R/o H.No. 320/284, Dhoom Singh Colony, and at First Floor Two Room, Kitchen, Latrine, Bathroom, Jawalapur, Haridwar-249407, Uttarakhand Having Total Covered Area 1300 Square Feet I.E. 120.81 Guarantor: Smt. Hemlata W/o Rajesh Kumar Square Meter. Bounded in East House of Bhola Singh, West 1- R/o H. No.-113, New Dheerwali, Jwalapur, Road 20 Feet Wide, North, Property of Other person, South Haridwar-249407, Uttarakhand, **2-** R/o H.No.-14, House of Jaipal Singh, Situated at Mohalla Dheerwali, Jwalapur, Ram Dham Colony, Shivalik Nagar, Haridwar- Village Ahmadpur Karacch, Pargana Jwalapur, Tehsil & Distt. Haridwar, Within Limits of Nagar Nigam Haridwar. Sale Deed on Dated 19.09.2015 Registered in Bahi No. 1, Zild 2401, Pages 143 - 164 Serial No. 8471 in the office of Sub

A Residential Plot No. 1 And 2, Area Measuring In East - 50 Feet, SARFAESI Notice issued Borrower: 1. Sh. Munesh Kumar S/o Late Sh. West - 50 Feet, North - 24 Feet and South - 24 Feet, Measuring u/s 13(2) on 24.07.2021 Kaailash Chand, R.o Mohalla - Kadach (Shastri Total Area 1200 Square Feet I.E. 111.52 Square Meters. Bearing

Nagar), Near Bakro Market, Jwalapur-249407 Khasra No. 1020/102. Situated At Mohalla Kadach (Shastri + interest & other charges. Haridwar, Uttarakhand Borrower: 2. Smt. Anguri Nagar), Pargana - Jwalapur, (Within Municipal Limits of W/o Late Sh. Kaailash Chand, R/o Mohalla-Kadach Haridwar), Tehsil and Distt. Haridwar, Bounded And Butted As (Shastri Nagar), Near Bakra Market, Jwalapur- on East - House of Balbir Advocate, West - House of Smt. Manju 249407, Near Bakra Market, Jwalapur-249407, Lata, North - 20 Feet Wide Road, And South - Land of Seller. Haridwar, Uttarakhand, Guarantor: Sh. Suresh Sale Deed Registered in Bahi No. 1, Zild No. 1798, Page No. 389-406, Document No. 1275 on Dated 04.03.2011 with Sub-Registrar Officer Haridwar.

A Non-Agriculture Property Measuring Having Total Area of SARFAESI Notice issued 14838.7 Sq.ft. I.E. 1380 Sq.Mtr., Bounded in East- Way of 12 ft. Urf Raju, R/o H.No.-241, Vill.-Mahtauli, Sultanpur Wide, West- Property of Shri Jagat Ram, North- Property of Shri Adampur, Tehsil-Laksar, Distt. Haridwar-247663

Littarakhand, Guarantor 1: Sh. Mukesh S/o Sh.

Littarakhand, Guarantor 1: Sh. Mukesh S/o Sh. Jwalapur, Tehsil Laksar, Distt. Haridwar, Registered Sale Deed Pratap,R/o H.No.-283/2, Village-Tanda Mahtauli, Dated 25.03.2017, Bahi No. 1, Zild No. 2576, Page 93-116 P.O.-Sultanpur Adampur, Tehsil Laksar, Distt. Document No. 1542, Dated 25.03.2017 with the office of Haridwar-247663, Uttarakhand, 2: Sh. Surendra Sub-Registrar Laksar in Favour of Smt. Sanyogita W/o Sh. Raju,

S/o Sh. Ratiram, R/o H.No. -199, Vill.-Bakarpur R/o Village Mahtauli Pargana Jwalapur, Tehsil Laksar, Distt. Haridwar. A Residential Open Plot Measuring East - 81 Ft., West - 81 Ft., SARFAESI Notice issued M/s Shree Balaji Hardware Store Through it's North -11 Ft. 4 Inch & South- 11 Ft. 4 Inch, Having Total Area of Prop. Sh. Ghan Shyam Giri S/o Sh. Chandmal 910 Sq. Ft. I.E. 84.57 Sq. Mtr., Bounded in East - Open Plot Ofc. Add- Near Flyover Bridge Gordhanpur Rajbala, West- Land of Known, North-Way & South - Balawali Road Laksar, Haridwar-247663 Uttarakhand Road, belonging to Khasra No. 115, Situated at Vill - Akodha Borrower: Sh. Ghan Shyam Giri S/o Sh. Aurangzebpur Balawali Road, Pargana Manglor, Tehsil Laksar & Chandmal, R/o Vill. Akodha, Aurangzebpur, Distt. Haridwar. Registered Sale Deed Dated 08.01.2007, Bahi Pargana Mangior, Tehsil Laksar, Distt. Haridwar No. 1, Zild No. 464, Page -01 Ad Bahi No. -1, Zild No. 466 Pages -247663, Uttarakhand Guarantor 1: Smt. Savita 399 - 404 Document No. - 220, Dated 08.01.2007 with The Office Devi W/o Sh. Rajesh Giri, R/o Vill.- Akodha, of Sub - Registrar Laksar in Favour of Smt. Savita Devi W/o Sri. Aurangzebpur, Pargana Manglor, Tehsil Laksar, Rajesh Giri & Smt. Manju Devi W/o Sri. Ghanshyam Giri R/o Vill-

Distt. Haridwar-247663, Uttarakhand 2: Smt. Akodha Aurangzebpur Pargana Manglor Tehsil Laksar Distt. Manju Devi W/o Sh. Ghanshyam Giri, R/o Vill. Haridwar. Akodha, Aurangzebpur, Pargana Manglor, Tehsil Laksar, Distt. Haridwar-247663, Uttarakhand A Residential House with all Construction Fixture & Fittings SARFAESI Notice issued M/s Laxmi Earth Movers & Suppliers Through | Situated at House No. 530 Mohalla Civil Line North (Saket) it's Prop. Sh. Lavi Tyagi S/o Satendra Kumar Ragba Village Muzaffarnagar Under Limits Part of Khasra No. Reg. Ofc. Add. 530, North Civil Line, Muzaffar- 124M Pargana, Tehsil & Distt. Muzaffarnagar Measuring East nagar, Muzaffarnagar-251001 Uttar Pradesh 65ft., West - 65 ft., North - 33 ft, and South - 33 ft, Total 2145 Sgr. Borrower: Sh. Lavi Tyagi S/o Satendra Kumar ft. i.e. 238.33 Sq. yard or 199.24 Sq. Meters, Boundaries, East -1. R/o 488, Mubarikpur, Tehsil - Khatauli Distt. House of Sh. Dhranender Singh, West - Way 25 ft. Wide, North -Muzaffarnagar - 251201, Uttar Pradesh. House of Smt. Urmila Devi and South - Way 20 ft. Wide Sale

2. R/o Shubham Vihar, Near Gurukul Kangri Deed No. 7943 Dated 26.12.1971. Guarantor 2: Sh. Braj Nandan S/o Suraj Bhan, R/o H.No. 530, North Civil Line, Muzaffarnagar-251001, (UP) A Residential House with all Construction Fixture & Fittings SARFAESI Notice issued M/s Yog Stay Through it's Prop. Sh. Acharya Situated at House No. 530 Mohalla Civil Line North (Saket) Niranjan Dev S/o Naval Kishor Singh, Reg. Ofc. Raqba Village Muzaffarnagar Under Limits Part of Khasra No. Address- Near Prem Vihar Chowk, Haripur Kalan, 124M Pargana, Tehsil & Distt. Muzaffarnagar Measuring East -Distt. Dehradun-249205, Uttarakhand 65ft., West - 65 ft., North - 33 ft. and South - 33 ft. Total 2145 Sq. Borrower: Sh. Acharya Niranjan Dev S/o Naval ft. i.e. 238.33 Sq. yard or 199.24 Sq. Meters, Boundaries, East -Kishor Singh, R/o H.No. 0, Prem Vihar Chowk, House of Sh. Dhranender Singh, West - Way 25 ft. Wide, North Haripur Kalan, Distt. Dehradun- 249205. House of Smt. Urmila Devi and South - Way 20 ft. Wide. Sale Uttarakhand. Guarantor: Sh. Braj Nandan S/o Deed No. 7943 Dated 26.12.1971. Suraj Bhan, R/o H. No. 530, North Civil Line, Muzaffarnagar-251001, Uttar Pradesh

Place : Haridwar

u/s 13(2) on 26.07.2021 for **Rs. 27,71,640.72** + interest & other charges. The Notice was sent to you by Registered post returned undelivered.

+ interest & other Charges & Legal Exp.



NOTICE OF CONVENING 31ST ANNUAL GENERAL MEETING THROUGH VC / OAVM

Notice is hereby given that the 31st Annual General Meeting ("AGM") of Oracle Credit Limited ("the Company") will be held on Thursday, September 30, 2021 at 04.00 P.M. through Video Conferencing ("VC") Other Audio Visual Means ("OAVM") in compliance with applicable provisions of the Companies Act. 2013 ("the Act") and Rules made thereunder and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, read with Ministry of Corporate Affairs (MCA) general circular dated April 8, 2020, April 13, 2020, May 5, 2020 and January 13, 2021 and SEBI Circulars dated May 12, 2020 and January 15, 2021 (collectively referred to as "relevant Circulars"), to transact the business as set out in the Notice of the AGM.

In compliance with the relevant circulars, the Notice of the AGM along with the Annual Report 2020-21, will be sent only by electronic mode to the members whose e-mail address is registered with the Company/Depository Participant(s). The aforesaid documents will also be available on the Company's website at www.oraclecredit.co.in and on the website of Stock Exchange i.e BSE Limited at www.bseindia.com.

Manner of registering / updating email addresses by the Members:

For shares held in physical form - Send a request to the Registrar and Transfer Agents of the Company, Beetal Financial & Computer Services (P) Limited at beetalrta@gmail.com.

For shares held in demat form - Please contact your Depository Participant (DP) Manner of casting vote(s) through e-voting:

Members will have an opportunity to cast their vote(s) on the business as set out in the Notice of the AGM through remote e-voting facility. The facility for e-voting will also be made available at the AGM and Members attending the AGM who have not cast their vote(s) by remote e-voting will be able to vote at the AGM. The manner of casting vote through remote e-voting or e-voting during the AGM, by members holding shares in dematerialised mode, physical mode and for members who have not registered their email addresses, has been provided in detail in the Notice of the AGM.

For Oracle Credit Limited

Date: 02/09/2021 Place: New Delhi

Sd/ Vineeta Gautam **Company Secretary**

ALLIANCE INTEGRATED METALIKS LIMITED CIN: L65993DL1989PLC035409

Regd. Off.: 5th Floor, Unit No. 506, Building No. 57, Manjusha Building, Nehru Place, New Delhi-110019 | Phone: +91-11-40517610 E-mail: alliance.intgd@rediffmail.com | Website: www.aiml.in

INFORMATION REGARDING 32ND ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCING / OTHER AUDIO VISUAL MEANS

The 32" Annual General Meeting ("AGM") of the members of Alliance Integrated Metaliks Limited ("the Company") will be held on Tuesday, September 28, 2021, at 03:30 PM through video conferencing("VC") / other audio visual means ("OVAM), in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 read with General circular dated April 8, 2020, April 13, 2020, May 5, 2020, January 13, 2021 and various other circulars related thereto (collectively referred to as "MCA Circulars") and Circular No. SEBI/HO/CFD/ CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020 and SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated January 15, 2021 issued by the Securities and Exchange Board of India ("the SEBI Circulars"), to transact the business as set out in the notice of AGM.

In compliance with the above circulars, electronic copies of the Notice of the AGM along with the Annual Report of the Company for financial year 2020-21 will be sent only through email to those members whose email addresses are registered with the Company/Depository Participant(s). The said documents will also be available on the website of the Company at www.aiml.in, the website of Stock Exchanges i.e. BSE Limited at www.bseindia.com and-website of CDSL i.e. www.evotingindia.com.

The Company is providing to its members a facility to exercise their right to vote on resolutions proposed to be considered at the AGM by electronic means ("E-voting") and the business set out in the Notice of AGM may be transacted through E-Voting. The Company has engaged CDSL to provide the facility of remote E-voting and facility of E-voting to the members participating in the AGM through VC/OAVM. The Members will be provided with a facility to attend the AGM through VC/OAVM through CDSL e-Voting System. The process and manner of remote E-voting, attending the AGM through VC/ OAVM and E-voting during AGM, for members holding shares in demat form or physical form and for the members who have not registered their email address, has been provided in the Notice of AGM.

A member whose email address is not registered with the Company/ Depository Participant(s) and who wish to receive through email, the notice of AGM and Annual Report 2020-2021 and obtain User ID and password to participate in the AGM through VC/OAVM and vote through E-voting system in the AGM or through remote E-voting can get his/her/its email address registered by following the procedure mentioned below:

In case of Physical Holding: Shareholders holding shares in physical form are requested to send following details to the Company's Registrar and Share Transfer Agent i.e. Beetal Financial & Computer Services (P) Limited having office at Beetal House, 3rd Floor, 99, Madangir, Behind LSC, New Delhi - 110062 at investor@beetalfinancial.com in order to facilitate for sending the Notice of Annual General Meeting, Annual Report and other important communications in electronic

Details: Full Name: Address: Email address: Mobile No.: No. of Shares held: Folio No., Certificate No.; Distinctive No. Original scan copy of PAN and Aadhar Card; Original scan copy of Cancelled Cheque or Passbook signed by Bank Manager with IFSC & MICR NO (For Bank Mandate).

requested to register/ update their email addresses with the relevant Depository Participants with whom they maintain their demat accounts. For further information, Members can write to the Company/RTA of the Company at

In case of Demat Holding: Members holding shares in dematerialized mode are

alliance.intod@rediffmail.com/investor@beetalfinancial.com

For Alliance Integrated Metaliks Limited

Date: 02.09.2021 Place: New Delhi

Daljit Singh Chahal Chairman Cum Wholetime Director DIN: 03331560

MOHAN SHRAMIK UDYOG LIMITED

CIN: U51101UP1976PLC004244 E-mail: mohanshramik@gmail.com

Regd. Off: - FF-3, Plot No. 319, Sector-3, Vasundhara, Ghaziabad-201012 NOTICE OF 45th ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING AND BOOK-CLOSUR Notice is hereby given that the Forty Fifth Annual General Meeting of Mohar Shramik Udyog Limited will be held at registered office on Thursday, the 30th day of September, 2021 at 11.00 A.M. The notice of the meeting setting out of ordinary business together with other relevant documents being sent through electronic mode to all the shareholders who have registered their e-mai

addresses with the company. Accordingly, the shareholders who have not yet registered or updated their email addresses are requested to register their email address with the company or send a request mail to the company for the same at mohanshramik@gmail.com. The Shareholders who wants to have the physical copy of the Annual Report, they can send us the e-mail to the mohanshramik@gmail.com mentioning their phone no/folio no /addresses/pin code in advance. As per requirement, e-voting facility is being offered using e-voting platform of CDSL enabling shareholders to cast their vote electronically. The e-voting will commence on Monday, the 27th September, 2021 at 10.00 A.M. IST and ends or Wednesday, the 29th September, 2021 at 5.00 P.M. IST. The cut-off date for the

purpose of e-voting is 23rd September, 2021. The Company has appointed Mr Ashutosh Kumar Pandey, Company Secretary in whole time practice, as the Scrutinizer to conduct evoting and poll process in a fair and transparent manner The Registrar of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Friday the 24th day of September, 2021 to Thursday, the 30th day of September, 2021 (both days inclusive). For Mohan Shramik Udyog Limited

Place: Mohan Nagar, Ghaziabad (U.P.) Date: 02.09.2021

Ram Chander Director

ADVIK CAPITAL LIMITED CIN: L65100DL1985PLC022505

Registered office: Plot No. 84, Khasra No. 143/84, Ground Floor, Extended Lal Dora, Kanihawla, Delhi-110081

Tel No: 011-25952595, Website: www.advikgroup.com/ail Email: cs@advikgroup.com advikgroup@yahoo.com NOTICE FOR 36"ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE AND REMOTE E-VOTING

(A) Annual General Meeting:

All the members are informed that:

Notice is hereby given that the 36"Annual General Meeting (AGM) of the members of the Company is schedule to be held on Monday, September 27" 2021 at 12:30 p.m., to transact

the business as set out in the Notice convening the said AGM.

The Company has on 02[™]September 2021completed the dispatch of the Annual Report containing Notice of the AGM along with the Audited Financial Statements (both Standalone and Consolidated) for the financial year ended March 31, 2021 and the reports of the Auditors and Directors, to the Members, whose names have appeared in the Register of Members for those holding in physical mode as on 20" August, 2021 either by email to the email ids registered with the Company/Registrar & Share Transfer Agents (RTA/Depository Participant(s), as the case may be or by post at the address registered with the Company/RTA. The Annual Report and other communications sent electronically have been displayed on the Company's website www.advikgroup.com/ail/investors/ and shall also be available for inspection by the Members at the Registered Office of the Company on all working days, except Saturday, Sunday and public holidays, between 11:00 a.m. and 1:00 p.m. up to the date of the AGM. Members are further informed that the audited financial statements of subsidiaries of the Company are also available on the Company's website.

Notice is further given pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 read with Rule 10 of Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Tuesday, September 21, 2021 to Monday, September 27, 2021 (both days inclusive). (C) E-voting:

n compliance with the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule

20 of the Companies (Management and Administration) Rules. 2014, as amended, and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and Secretarial Standards-2 on General Meetings, the Company is providing remote e-voting facility for its shareholders to cast their vote electronically from a place other than the venue of the AGM for all the resolutions set forth in the Notice, for which the Company has engaged the services of CDSL as e-voting agency.

The cut-off date for determining eligibility to vote by electronic means is 21" September, 2021. Date of completion of sending Notice of AGM: 02 September, 2021. Any person, who acquires shares and become members of the Company after dispatch

of the notice of the AGM and holding shares as of the cut-off date, i.e.21" September, 2021 may obtain the login-id and password by sending an e-mail to cs@advikgroup.com, advikgroup@yahoo.com and helpdesk.evoting@cdslindia.com by mentioning their Folio No./DP ID and Client ID No. However, if such shareholder is already registered with CSDL for remote e-voting then existing user-id and password can be used for casting

Date & time of commencement of	Friday, 24thSeptember, 2021, 9:00 A.M.		
remote e-voting	(IST)		
Date & time of end of remote e-voting	Sunday, 26th September, 2021, 5:00 P.M. (IST)		
 The remote e-voting through electron	nic means shall not be allowed beyond 5:00 p.m.		
(IST) on Sunday, 26" September, 202	1.		

The Notice of the Annual General Meeting is available on Company's website viz.

www.advikgroup.com/ail/investors/ and on CDSL's website viz. www.evotingindia.com The Members, who have not cast their vote either through remote e-voting, can exercise their voting rights at the AGM. The Company will make necessary arrangements in this egard at the AGM Venue. The facility for voting through electronic voting systemshall be made available at the AGM and the Members Attending the AGM, who have not cast their vote by remote e-voting shall be able to vote at the AGM through Ballot Paper.

Members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM; however those Members shall not be entitled to cast their vote again at the AGM. In case of any grievance in respect of e-voting, Members may refer to the Help & Frequently Asked Questions (FAQs) and e-voting user manual www.evotingindia.com under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call Helpdesk: 18002005533 or email to cs@advikgroup.com or advikgroup@yahoo.com or call: 011-25952595

he result of e-voting shall be announced on or after the AGM of the Company. The results declared along with the Scrutinizer's Report shall be placed on the Company's website www.advikgroup.com/ail/investors/ and on the website of CDSL for information of the Members, besides being communicated to the Stock Exchanges. A Member entitled to attend and vote at the AGM is entitled to appoint a Proxy to attend and vote instead of himself and the Proxy need not be a Member of the Company. The Instrument appointing the Proxy, in order to be valid and effective, should be deposited at the Registered Office of

the Company not less than forty-eight hours before the commencement of the AGM. For and on behalf of the Board

ADVIK CAPITAL LIMITED

Authorised Officer

For Dewan Housing Finance Corporation Limited,

September 02, 2021

New Delhi

VIRENDER KUMAR AGARWAL Managing Director DIN: 00531255

be paid on the EMD.

DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION LIMITED National Office: HDIL Towers, 6th Floor, Station Road, A.K.Marg, Bandra (East), Mumbai-400051.

Regional Office: Plot No-6, Block A, Sector-2, Noida, U.P-201 301

Contact Person: 1. Mr. Hari Sharan Singh (Mobile: 8595371836) 2. Auction Service Provider "Nexxon Solutions Pvt Ltd". (Mobile No: 7977285407)

E-Auction Sale Notice- Subsequent Sale

Pursuant to taking possession of the secured asset mentioned hereunder by the Authorized Officer of Dewan Housing Finance Corporation Limited under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 for the recovery of amount due from borrower/s, offers are invited by the undersigned in sealed covers for purchase of immovable property, as described hereunder, which is in the physical possession, on 'As Is Where Is Basis', 'As Is What Is Basis' and 'Whatever Is There Is Basis', Particulars of which are given below:-

One Thousand Four Hundred	All the Part and Parcel of Property bearing:- Plot No. C-1/2, U G F-01 Upper Ground Floor	Rs. 10,50,000/-	Rs. 1,05,000/-	Rs.19,12,031/- (Rupees
and Ninety Only.)	Front Right Side D L F Ankur Vihar, Loni, Ghaziabad-201002, Uttar Pradesh.	(Rupees:- Ten Lakhs and Fifty Thousand Only)	(Rupees One Lakhs and Five Thousand Only)	Nineteen Lakhs Twelve Thousand and Thirty One Only)
(Rupees Nineteen Lakhs Seven Thousand Seven Hundred and	Society, Akash Vihar Sadullabad, Pargana Loni,	Rs. 14,70,000/- (Rupees:- Fourteen Lakhs Seventy Thousand Only)	Rs. 1,47,000/- (Rupees One Lakhs Forty Seven Thousands Only)	Rs.23,99,485/- (Rupees Twenty Three Lakhs Twenty Nine Thousand Four Hundred and Eighty Five Only)
13-12-2016, Rs.16, 02,256 (Rupees Sixteen Lakhs Two Thousand Two Hundred and Fifty Six Only.)	All the Part and Parcel of Property bearing:- Flat No. 47 A, First Floor, GDA Flats, Shakti Khand- I, Indirapuram, Ghaziabad, Uttar Pradesh- 201014.	Rs. 10,00,000/- (Rupees:- Ten Lakhs Only)	Rs. 1,00,000/- (Rupees One Lakhs Only)	Rs.26,96,820/- (Rupees Twenty Six Lakhs Ninety Six Thousand Eight Hundred and Twenty Only)
	All the Part and Parcel of Property bearing:- Flat No. 304, Third Floor, Sector- XU-01, Greater Noida, District-Gautambudh Nagar, Uttar Pradesh 201308.	Rs. 6,80,000/- (Rupees:- Six Lakhs and Eighty Thousand Only)	Rs. 68,000/- (Rupees Sixty Eight Thousands Only)	Rs.14,36,768/- (Rupees Fourteen Lakhs Thirty Six Thousand Seven Hundred and Sixty Eight Only)
The second secon	Rupees Nineteen Lakhs Seven Thousand Seven Hundred and Ninety Five Only.) 13-12-2016, Rs.16, 02,256 (Rupees Sixteen Lakhs Two Thousand Two Hundred and Fifty Six Only.) 16-08-2017, Rs.8, 22,076 (Rupees Eight Lakhs Twenty Two Thousand and Seventy Six Only.)	Rupees Nineteen Lakhs Seven Thousand Seven Hundred and Ninety Five Only.) 13-12-2016, Rs.16, 02,256 (Rupees Sixteen Lakhs Two Thousand Two Hundred and Fifty Six Only.) 16-08-2017, Rs.8, 22,076 (Rupees Eight Lakhs Twenty Two Thousand and Seventy Six Only.) 64, Khasra No-68, 2nd Floor Aakshwani Čivil-wing Society, Akash Vihar Sadullabad, Pargana Loni, Ghaziabad, Ghaziabad-201102, Uttar Pradesh. All the Part and Parcel of Property bearing: Flat No. 47 A, First Floor, GDA Flats, Shakti Khand-I, Indirapuram, Ghaziabad, Uttar Pradesh- 201014. All the Part and Parcel of Property bearing: Flat No. 304, Third Floor, Sector- XU-01, Greater Noida, District-Gautambudh Nagar, Uttar Pradesh 201308.	Rupees Nineteen Lakhs Seven Thousand Seven Hundred and Ninety Five Only.) 13-12-2016, Rs.16, 02,256 (Rupees Sixteen Lakhs Two Thousand Two Hundred and Fifty Six Only.) 16-08-2017, Rs.8, 22,076 (Rupees Eight Lakhs Twenty Two Thousand and Seventy Two Thousand and Seventy Two Thousand and Seventy Two Thousand and Seventy Two Thousand and Seventy Two Thousand and Seventy Two Thousand and Seventy Two Thousand and Seventy Two Thousand Two Hundred and Fifty Six Only.) 64, Khasra No-68, 2nd Floor Aakshwani Čivil-wing Society, Akash Vihar Sadullabad, Pargana Loni, Ghaziabad-201102, Uttar Pradesh. All the Part and Parcel of Property bearing: Flat No. 47 A, First Floor, GDA Flats, Shakti Khand- I, Indirapuram, Ghaziabad, Uttar Pradesh- 201014. Rs. 10,00,000/- (Rupees:- Ten Lakhs Only) Rs. 6,80,000/- (Rupees:- Six Lakhs and Eighty	Rupees Nineteen Lakhs Seven Thousand Seven Hundred and Ninety Five Only.) All the Part and Parcel of Property bearing: Fifty Six Only.) All the Part and Parcel of Property bearing: Flat No. 47 A, First Floor, GDA Flats, Shakti Khand- I, Indirapuram, Ghaziabad, Uttar Fradesh- 201014. All the Part and Parcel of Property bearing: Flat No. 304, Third Floor, Sector- XU-01, Greater Noida, District-Gautambudh Nagar, Uttar Pradesh 201308. (Rupees: Fourteen Lakhs Seventy Thousand Only) Rs. 1,00,000/- (Rupees: Ten Lakhs Only) Rs. 1,00,000/- (Rupees: Ten Lakhs Only) Rs. 6,80,000/- (Rupees: Six Lakhs and Eighty Thousand Only)

The Terms and Conditions of the E-Auction are as under:

 E-Auction is being held on "AS IS WHERE IS BASIS", "AS IS WHAT IS BASIS", and "WHATEVER IS THERE IS BASIS" and will be conducted "Online". The Auction will be conducted through the DHFL approved auction service provider "Nexxen Solutions Pvt Ltd".

 Last Date of Submission of Tender/Sealed Bid/Offer in the prescribed tender forms along with EMD and KYC is 20-09-2021 up to 5:00 PM at the Zonal Office address mentioned herein above. Tenders that are not filled up or tenders received beyond last date will be considered as invalid tender and shall accordingly be rejected. No interest shall

3. Date of E-Auction for Property is 21-09-2021 at the web portal (http://Disposalhub.com) from 11:00 AM to 2:00 PM with unlimited extensions of 5 Minutes each. The tender/Sealed Bid/offer will be opened in the presence of the Authorized Officer.

Date of Inspection of the Immovable Property is on 15-09-2021 between 11.00 AM to 04.00 PM.

The tenderer/online bidder hereby agrees that once he/she has formally registered a qualified tender before authorized officer will have to express their interest to participate through the E-auction bidding platform, by submitting this document. It shall be the tenderer's/online bidder's sole responsibility to procure his/her login id and password from

Further interest will be charged as applicable, as per the Loan Agreement on the amount outstanding in the notice and incidental expenses, costs, etc., is due and payable till its realization.

The notice is hereby given to the Borrower/s and Guarantor/s they can bring the intending buyers/purchasers for purchasing the immovable property as described herein above, as per the particulars of terms and Conditions of Sale.

Since in above mentioned cases wherein Sale Notice was issued/published earlier also therefore, the Borrower(s)/Co-Borrower(s)/Guarantor(s) are hereby given 15 DAYS SALE NOTICE UNDER THE SARFAESI ACT, 2002 (as per the revised guidelines in the Gazette of India notification dated 03/11/2016) to pay the sum mentioned as above before the date of Auction failing which the immovable property will be auctioned and balance, if any, will be recovered with interest and costs. If the Borrower pays the amount due to Dewan Housing Finance Corporation Ltd., in full before the date of sale, auction is liable to be stopped.

10. The detail terms and conditions of the auction sale are incorporated in the prescribed tender form. Tender forms are available at the above mentioned National/Zonal/Branch office. 11. The immovable property will be sold to the highest tenderer/Bidder in E- Auction. The Authorized Officer reserves the absolute discretion to allow inter se bidding with minimum

Bid increment amount. The Property as mentioned will not be sold below Reserve Price. 12. The Tenderer(s) / Offerer(s) / Prospective Bidder(s) / Purchaser(s) are hereby notified that the secured asset will be sold with the Encumbrances and dues payable to Statutory

Authority (if any) and are also requested, in their own interest, to satisfy himself / themselves/ itself with regard to the above and other relevant details pertaining to the above mentioned secured asset before submitting the tenders.

13. DHFL is not responsible for any liabilities whatsoever pending upon the property as mentioned above. The Property shall be auctioned on 'As Is Where Is Basis', 'As Is What Is Basis' and 'Whatever Is There Is Basis'.

14. The Total Loan Outstanding amount is not the loan foreclosure amount. All other charges (if any) shall be calculated at the time of closure of the loan.

The Demand Draft Should be made in favor of 'Dewan Housing Finance Corporation Limited' only. 16. Wherever applicable, its responsibility of auction purchaser to deduct Tax at Source (TDS) @ 1% of the total sale consideration on behalf of the resident owner on the transfer of

immovable property having consideration equal to Rs.50 lacs and above and deposit the same with appropriate authority u/s 194 IA of Income Tax act. For further details, contact the Authorised Officer, at the above mentioned Office address.

financialexp.epap.in

NOTICE Notice is hereby given that the 35th AGM (Annual General Meeting) of the Company is scheduled to be held on 29th September, 2021, Wednesday at 12.30 p.m. through Video Conference or Other Audio-Visual Means (OAVM). In compliance with general circular dated January, 13 2021 read with circulars dated April 8, 2020, April, 13 2020 and May 5 2020 and all other applicable laws and circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA), Government of India and Securities and Exchange Board of India (SEBI), to transact the Ordinary and Special businesses as set out in the Notice. As per aforesaid circulars, the Notice of AGM along with the Annual Report for FY 2020-

CODUCK GOODLUCK INDIA LTD.

Corp. Off.: Good Luck House, II-F, 166-167, Nehru Nagar, Ambedkar Road, Ghaziabad, 201001

CIN: L74899DL1986PLC050910; Tel: 91-120-4196600; Fax: 91-120-4196666

e-mail: goodluck@goodluckindia.com; website: goodluckindia.com

2021 has to be sent only by electronic mode to those Members whose E-mail Id are already registered with the Company/ Depositaries. The Company is also providing e-voting and remote e-voting facility to all its Members similar to earlier practices. If your email ID is already registered with the Company/ Depositary, Notice of AGM along with annual report for FY 2020-2021 and login details for e-voting shall be sent to your

registered email address. In case you have not registered your email ID with the Company Depositary, please follow below instructions to register your email ID for obtaining annual report for FY 2020-2021 and login details for e-voting.

Send a request to Registrar and Share Transfer Agent of the Company, MAS Services Limited at info@masserv.com providing Folio number, Name of the shareholder, scanned copy of the share certificate (Front and Back), PAN Physical (self-attested scanned copy of PAN Card), AADHAR `(self-attested scanned Holding copy of Aadhar Card) for registering email address.

Please send your bank detail with original cancelled cheque to our RTA (i.e. MAS Service's Limited, T-34, 2ndFloor, Okhla Industrial Area, Phase-II, New Delhi 100020 alongwith letter mentioning folio no. if not registered already.)

Please contact your Depositary Participant (DP) and register your email

Please also update your bank detail with your DP for dividend payment by NACH if declare by company. The Notice of AGM and Annual Report for FY 2020-2021 will also be available on Company's website at www.goodluckindia.com and also on the Stock Exchanges websites at www.bseindia.com and www.nseindia.com. Members attending the

Demat | address as per the process advised by DP.

meeting through VC/OAVM shall be counted for the purpose of Quorum under Section 10 of the Companies Act, 2013. For Goodluck India Limited (Abhishek Agrawal) Place: Delhi **Company Secretary** Date: 03.09.2021

Circle Sastra Haridwar: Recovery Centre, BHEL पंजाब नैशनल बैंक 🥲 punjab national bank Sector 4, Haridwar Email:cs8238@pnb.co.in NOTICE UNDER 13 (2) OF SARFAESI ACT 2002 READ WITH RULE 3 OF SECURITY INTEREST ENFORCEMENT. RULES 2002.

available, to redeem the secured assets Date of

Details of Security/Property

House Measuring in East - 65 Feet 6 inch, SARFAESI Notice issued st- 83 Feet 9 inch, North- 21 Feet 3 inch and South- 21 et 3 inch, having Total Area Measuring 1585.75 lare Feet I.E. 147.37 Square Meter. Constructed 1 Room, ring covered Area 9.29 Sq. Meter Situated At Mohalla twada Jwalapur, Pargana Jwalapur, Tehsil And Distt. idwar (Within The Municipal Limits of Haridwar) inded in East - Property of other person, West- Remaining rt of House of Sanjeev Sahu, North- Nala Barsati 31.12.2015.

South - House of Hameed. Sale Deed Registered At Bahi Jwalapur-249407, Haridwar, Uttarakhand No.1, Zild No. 3564, Pages 71-94, Document No.7523 on Dated Borrower: 1. M/s Shalu Packers through its 98.275 Feet and in South - 98.275 Feet, Having Total Area u/s 13(2) on 04.08.2021 Prop. Smt. Prayeen, Address- Village Shikarpur, 14741.25 sg. Feet I.E. 1370 Sg.Meter, Having Khasra No. 257, P.O. Landhaura. Distt. Haridwar-247664, Bounded in East-Plot of Ehsaan, West - Plot of Iqbal, North- Rest + interest & other charges. Uttarakhand Borrower: 2. Smt. Parveen W/o Land of First Party and in South - Way 12 Feet Wide, Situated at Shakeel Prop. of Shalu Packers, R/o H.No.-47, Village Shikarpur, Pargana Manglour, Tehsil Roorkee, Distt. Matawala Hasanbag, Landhaura, PO Landhaura, Haridwar. Gift Deed Registered in Bahi No. 1, Zild Nol. 3939. Tehsil Roorkee, Distt. Haridwar-247664, Pages 275 to 292, Serial No. 417, On 23.01.2016 At the Office of Uttarakhand Guarantor: 1. Sh. Shakeel S/o Sub-Registrar, Roorkee-1.

Shabbeer R/o H.No.-47, Matawala Hasanbag, Landhaura, PO Landhaura, Tehsil Roorkee, Distt.-Haridwar-247664 Uttarakhand Guarantor: 2. Sh. Inam S/o Shabbeer R/o H.No.-96, Harijan Basti, Laksar Marg. Roorkee, A House Whose Land Measuring East- 19.6 Feet, West - 19.6 SARFAESI Notice issued Borrower: 1. Sh. Rajnish Kumar S/o Sh. Kunwar Feet, North - 33.4 Feet, South - 33.4 Feet, Area 650 square Feet u/s 13(2) on 04.08.2021 Pal, 1- R/o New Dheerwali, Near Adarsh Shishu I.E. 60.40 Square Meter, in Ground Floor One Room, Store, Niketan. Jwalapur. Haridwar-249407, Uttarakhand Kitchen, Latriene Bathroom, Jeena And A Common Passage + interest & other charges.

for **Rs. 14,31,288.70** The Notice was sent to you by Registered post returned undelivered.

other Charges & Legal Exp. **Due Amount**

10.05.2021 for **Rs. 16,76,302.00** 16,76,302.00 The Notice was sent to + interest & you by Registered post other Charges returned undelivered. & Legal Exp.

Due Amount u/s 13(2) on 26.07.2021 as on 26.07.2021 for **Rs. 19,82,697.74** Rs. interest & other charges. 19,82,697.74 The Notice was sent to + interest & vou by Registered post other Charges returned undelivered. & Legal Exp.

returned undelivered.

for **Rs. 27,09,379.34**

vou by Registered post

returned undelivered.

Due Amount u/s 13(2) on 26.07.2021 as on 26.07.2021 for Rs. 15.19.555.23 interest & other charges. 15,19,555.23 The Notice was sent to you by Registered post

+ interest & other Charges & Legal Exp.

Due Amount u/s 13(2) on 26.07.2021 as on 02.05.2021 Rs. + interest & other charges. 27,09,379.34 The Notice was sent to + interest &

other Charges

& Legal Exp.

Due Amount as on 31.03.2021 25,71,640.72

Authorised Officer

Date: 03-09-2021 Place: Delhi/ NCR

New Delhi

IndiaShelte

सूचना दी जाती है कि कंपनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) के सभी लागू प्रवधानों के अनुपालन में वहां बनाए गए नियमों और कार्पोरेट मामले मंत्रालय (एम सी ए) के सामान्य परिपत्र संख्या 20/2020 दिनांक 05 मई, 2020, 14/2020 दिनांक 08 अप्रैल 2020 17 / 2020 दिनांक अप्रैल 13, 2020 और 20 / 2021–20 दिनांक जनवरी 13. 2021 एवं सेबी परिपन्न दिनांक 12 मई, 2020 के अन्तगर्त इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के सदस्यों की पंजीकृत कार्यालयः 6वीं मंजिल, प्लॉट नं. 15 संस्थागत क्षेत्र, सेक्टर 44, गुड़गांव, हरियाणा— 122002 में एवं वैकल्पिक रूप से वीडियों कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी") अन्य आडियों – विजुअल माध्यमों ("ओएवीएम") के माध्यम से भी 23वीं वार्षिक आम बैठक एजीएम के नोटिस में दिए गए व्यवसाय को लेन-देन करने के लिए दिनांक 29 सितंबर, 2021 को प्रातः 11.00 बजे आयोजित की जायेगी।

उक्त उददेश्य के लिए कंपनी दिनांक सितबंर, 06, 2021 को या उसके बाद ई-मेल द्वारा अपने सभी सदस्यों को वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए कंपनी की वार्षिक रिर्पोट के साथ सूचना भेजेगी। एजीएम सूचना तथा वार्षिक रिर्पोट कंपनी की वेबसाइट www.indiashelter.in पर भी उपलब्ध होगा। सदस्य वी सी/ ओएवीएम के माध्यम से भी एजीएम में भाग लेने में सक्षम होंगें। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने वाले सदस्यों को भी अधिनियम की धारा 103 के

भौतिक मोड में शेयर रखने वाले सदस्य और जिन्होनें कंपनी के साथ अपना ई-मेल पता पंजीकृत/अपडेट नहीं कराया है। उनसे अनुरोध है कि कंपनी को mukti.chaplot@indiashelter.in पर या आरटीए को compliances@skylinerta.com (फोन न. 011-40450194) पर फोलियो

इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड दिनांकः 02 सितम्बर, 2021 स्थानः गुरूग्राम कंपनी सचिव



आस्ति वसूली शाखा, 26/28—डी, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली—110001, (कार्यस्थल : एम–35, प्रथम तल, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली—110001)

कब्जा सूचना [प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(1) के तहत]

जबकि, अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित अधिनियम 2002 (2002 का 54) के प्रवर्तन के अधीन युनियन बैंक ऑफ इंडिया, आस्ति वसूली शाखा, 26/28-डी, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001, (कार्यस्थल : एम-35, प्रथम तल, क्नॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001) का प्राधिकृत अधिकारी होने तथा प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमायली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अधीन प्रदत शक्तियों के अंतर्गत कर्जदार मैसर्स तक्षशिला रिटेल प्रा. लि. इसके प्रबंध निदेशक / गारंटर श्री दिनेश सहगल के माध्यम को एक मांग सूचना दिनांक 11.12.2014 को जारी किया था जिसमें उल्लेखित राशि रू 31,11,68,858.81 (रु. इक्तीस करोड ग्यारह लाख अडसठ हजार आठ सौ अद्वावन और पैसे इक्यासी मात्र) और दिनांक 01.12.2014 से भविष्य का ब्याज इत्यादि सहित उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अंदर भूगतान करने को कहा गया था।

उधारकर्ता उक्त राशि का भगतान करने में असफल हो गये हैं इसलिये एतदद्वारा उधारकर्ता तथा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने सुरक्षा हित प्रवर्तन के नियम 8 साथ पठित अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के तहत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में नीचे वर्णित संपत्ति पर सांकेतिक कब्जा दिनांक 31.08.2021 को ले लिया है। विशेष रूप से कर्जदार तथा जनसाधारण को एतदद्वारा उक्त संपत्तियों के साथ लेन-देन न

करने के लिए सावधान किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी लेन-देन **युनियन बैंक ऑफ** इंडिया, 26/28-डी, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001 के प्रभार वास्ते राशि रु. 31,11,68,858.81 (रु. इक्तीस करोड ग्यारह लाख अडसठ हजार आठ सौ अट्ठावन और पैसे इक्यासी मात्र) और दिनांक 01.12.2014 से भविष्य का ब्याज इत्यादि सहित के अधीन होगा। उधारकर्ता का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8), के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित

परिसंपत्तियों के मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है।

अचल / बंधक संपत्ति(यों) का विवरण

 व्यवसायिक सम्पत्ति पीछे का हिस्सा प्रथम तल सम्पत्ति नं. जी–8. साउथ एक्सटेंशन— ।, नई दिल्ली—110049 में स्थित यह सम्पत्ति दिनेश सहगल द्वारा बंधक है, क्षेत्रफल 450 वर्ग फीट

 व्यवसायिक सम्पत्ति पीछे का हिस्सा द्वितीय तल सम्पत्ति नं. जी–8. साउथ एक्सटेंशन— ।, नई दिल्ली—110049 में स्थित यह सम्पत्ति श्रीमती हर्ष सहगल द्वारा बंधक है, क्षेत्रफल 450 वर्ग फीट

प्राधिकृत अधिकारी, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, दिनांकः 31.08.2021, स्थान : दिल्ली

ADF Foods Limited

CIN: L15400GJ1990PLC014265 Regd. Office: 83/86 GIDC Industrial Estate, Nadiad 387001, Gujarat

Tel.: +91 268 2551381/82, Fax.: +91 268 2565068 E-mail: info@adf-foods.com, website: www.adf-foods.com

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING. E-VOTING AND BOOK CLOSURE DATE

NOTICE is hereby given that the 31" Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held through Video Conferencing ("VC") or Other Audio Visual Means ("OAVM") on Friday, September 24, 2021 at 4:00 p.m. In compliance with General Circular Numbers 2/2021, 20/2020, 14/2020, 17/2020 issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) and Circular Number SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 and SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 issued by the Securities and Exchange Board of India (SEBI) (hereinafter collectively referred to as "Circulars"), companies are allowed to hold AGMs through VC/OAVM, without the physical presence of Members at a common venue. Hence, the AGM of the Company is being held through VC/OAVM to transact the business as set forth in the Notice of the AGM dated May 24, 2021.

In compliance with the Circulars, electronic copies of the Notice of the 31" AGM and Annual Report 2020-21 have been sent to all the Members whose e-mail IDs are registered with the Company/ Depository Participant(s). These documents are also available on the website of the Company at www.adf-foods.com, websites of the Stock Exchanges i.e. National Stock Exchange of India Limited and BSE Limited at www.nseindia.com and www.bseindia.com respectively and also available on the website of the Link Intime India Pvt. Ltd. (LIIPL) at www.linkintime.co.in. The dispatch of Notice of the AGM through e-mails has been completed on August 28, 2021.

Notice is also given that pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 and Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Register of Members and the Share Transfer Books of the Company shall remain closed from Saturday, September 18, 2021 to Friday, September 24, 2021 (both days

inclusive) for the purpose of holding AGM In compliance with the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended from time to time and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and Secretarial Standard on General Meeting (SS-2) issued by the Institute of Company Secretaries of India:

a. The Company is providing remote e-voting facility to its Members to cast their vote by electronic means on the Resolutions set out in the Notice of the said AGM.

 b. The remote e-voting shall commence on Monday, September 20, 2021 at 9:00 a.m. and shall end on Thursday, September 23, 2021 at 5:00. p.m.

c. The cut-off date for determining the eligible Members for voting is

d. Any person, who acquires shares of the Company and become Member of the Company after dispatch of AGM Notice and holding shares as of the cut-off date i.e. September 17, 2021 may obtain the login ID and password by sending a request at enotices@linkintime.co.in. However, if you are already registered with LIIPL for e-voting, then you can use your existing user ID and password. If you forget your password, you can

available on www.linkintime.co.in The Members are requested to note that:

a. Remote e-voting module shall be disabled by LIIPL for voting after 5:00 p.m. on Thursday, September 23, 2021.

reset your password by using "Forgot User Details/Password" option

b. The facility for e-voting shall be made available during the AGM.

c. The Members who will be attending the Meeting and who have not cast their votes through remote e-voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through the e-voting system at the AGM. The Members who have already cast their votes through remote e-voting may attend the Meeting but shall NOT be entitled to cast their votes at the AGM.

 d. Only the Members holding shares in physical or dematerialised form. as on the cut-off date September 17, 2021 shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or e-voting at the AGM.

Members holding shares in demat form and who have not registered their E-mail addresses so far are requested to register their E-mail address with the Depository Participants ('DP') for receiving all communication including Annual Report, Notices, Circulars, etc. from the Company electronically.

Members holding shares in physical form and who have not registered their E-mail address with the Company/ its RTA and or not updated the Bank Account mandate for receipt of dividend are requested to visit the website of our RTA, Link Intime India Private Ltd., www.linkintime.co.in under Investor Services > E-mail/Bank Detail Registration - fill in the details, upload the required documents and submit.

For any query or grievances in relation to remote e-voting, Members may refer to Frequently Asked Questions ("FAQs") and Instavote e-voting manual for Members available at https://instavote.linkintime.co.in under help section or write an email to enotices@linkintime.co.in or may contact Ms. Shalaka Ovalekar, Company Secretary at co_secretary@adf-foods.com or at contact number: (022) 61415555.

The result of the remote e-voting/ e-voting at AGM shall be declared on or before September 28, 2021. The result declared, along with the Scrutinizer's Report, shall be displayed at the Registered Office of the Company and also be placed on the Company's website and on the website of LIIPL and be communicated to the Stock Exchanges where the Company's shares are listed.

> For ADF Foods Ltd. Sd/-

Shalaka S. Ovalekar Company Secretary एसकेएन इंडस्ट्रीज लिमिटेड पंजी. कार्यालय: 368/369, बसंत बिल्डिंग, चौधरी मार्केट, सुल्तानपुर, नई दिल्ली-110030

> 29वीं वार्षिक साधारण सभा तथा रिमोट ई-वोटिंग जानकारी के लिये सुचना

हमारे पूर्व के विज्ञापन तिथि 28 अगस्त, 2021 के अधिक्रम में एतदृद्वारा सृचित किया जाता है कि कम्पनी की 29वीं वार्षिक साधारण सभा (एजीएम) गुरुवार, 30 सितम्बर, 2021 को 10.30 पुर्वा. (आईएसटी) में एमसीए सर्क्युलर के अनुसार कम्पनी को किसी सामहिक स्थान पर भौतिक उपस्थिति के बिना वीसी/ओएवीएम द्वारा एजीएम के आयोजन की अनुमित प्राप्त होने के कारण विडियो कान्फ्रेंसिंग (वीसी) अथवा अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों (ओएवीएम) द्वारा आयोजित की जायेगी। इस प्रकार कम्पनी की एजीएम वीसी के द्वारा आयोजित की जा रही है जिसमें एजीएम की सचना तिथि 27 अगस्त. 2021 में वर्णित व्यवसायों को निष्पादित किया जायेगा

सर्क्युलर्स के अनुपालन में एजीएम की सूचना तथा वित्त वर्ष 2020-21 के लिये कम्पनी के वार्षिक रिपोर्ट की इलेक्ट्रॉनिक प्रति ऐसे सभी सदस्यों को भेज दी गई हैं जिनके ईमेल आईडी कम्पनी/डिपॉजिटरी पार्टिसिपैन्ट के पास पंजीकृत हैं। ये सभी दस्तावेज कम्पनी की वेबसाईट www.sknindustries.in तथा लिंक इनटाईम की वेबसाईट https://instavote.link-

intime.co.in पर उपलब्ध है। ईमेल द्वारा एजीएम का प्रेषण 01 सितम्बर, 2021 को पूरा किया गया है। सदस्यों के मतदान का अधिकार कट-ऑफ तिथि अर्थात् गुरुवार, 23 सितम्बर, 2021 को कम्पनी की प्रदत्त इक्विटी शेयर पुंजी में उनकी शेयरों के अनुपात में होगा। सदस्यों द्वारा मतदान करने की सुविधा लिंक इन्टाइम द्वारा उपलब्ध कराई जायेगी। कम्पनी की एजीएम की सुचना में अन्य बातों के अलावे रिमोट ई-वोटिंग की प्रक्रिया तथा वीसी के द्वारा भागीदारी के निर्देशों

रिमोट ई-वोटिंग अवधि सोमवार, 27 सितम्बर, 2021 को 9.00 बजे पूर्वा. (आईएसटी) में शुरू होगी तथा बुधवार, 29 सितम्बर, 2021 को 5.00 बजे अप. (आईएसटी) में बंद होगी। इस अवधि में कम्पनी के सदस्य सचना में वर्णित व्यवसाये पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से मतदान कर सकते हैं। उसके बाद ई-वोटिंग पद्धत्ति मतदान के लिये बाधित कर दी जायेगी। सदस्य द्वारा किसी प्रस्ताव पर एक बार मतदान कर देने के बाद उन्हें उसमें परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जायेगी। सभा के दौरान इलेक्ट्रॉनिक मतदान प्रणाली से मतदान की सुविधा भी उपलब्ध कराई जायेगी तथा सभा में उपस्थित होने वाले सदस्य जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा पहले मतदान नहीं किये हों, वे सभा में मतदान कर सकते हैं। जिन सदस्यों ने सभा से पूर्व रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना मतदान कर दिये हों, वे भी सभा में शामिल हो सकते हैं, किन्तु पूनः मतदान के लिये अधिकृत नहीं होंगे। रिमोट ई-वोटिंग द्वारा मतदान के लिये सदस्यों के लिये निर्देश एजीएम की सचना तथा साथ ही कम्पनी की वेबसाईट

www.sknindustries.in तथा आरटीए की वेबसाईट www.linkintime.com पर भी उपलब्ध है।

यदि आपको ई-वोटिंग-संबंधी कोई जिज्ञासा अथवा समस्या हो तो सहायता खंड के अंतर्गत वेबसाईट https://instavote.linkintime.co.in पर उपलब्ध Frequently Asked Questions ("FAQ's") तथा इन्स्टावोट ई-वोटिंग मैन्युअल देखें अथवा delhi@linkintime.co.in पर ईमेल करें अथवा नोवल हाईट्स, प्रथम तल, प्लॉट नं. 2सी-1, ब्लॉक, एलएससी, साकिरी मार्केट के निकट, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058 में लिंक इन टाइम से टेली नं. +9 11 4140592, 93, 94 पर सम्पर्क करें जो इलेक्ट्रानिक मतदान से संबंधित समस्या का निदान करेंगे। सदस्यों से आग्रह है कि पूछताछ, यदि कोई हो, सभा से कम से कम सात दिन अग्रिम में भेजे ताकि सभा में सूचना उपलब्ध कराई जा सके।

एसकेएन इंडस्ट्रीज लिमिटेड के लिये हस्ता./ स्थानः नई दिल्ली सतीश चोपड़ा तिथि: 02.09.2021

ओमांश इंटरप्राइजेज लिमिटेड CIN: L01100DL1974PLC241646

पंजी. कार्या.: शॉप नं. क्युडी-37, डीडीए मार्केट, पीतमपुरा, नई दिल्ली-110034 ईमेल आईडी: omanshwork@gmail.com फोन: +91 6283364410

एतदद्वारा सुचित किया जाता है:

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए), मारत सरकार और भारतीय प्रतिभृति तथा विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा जारी किये गये सामान्य परिपन्न दिनांक 13 जनवरी, 2021 के साथ पठित परिपन्न दिनांक 8 अप्रैल, 2020, 13 अप्रैल, 2020 एवं 5 मई, 2020 तथा सभी अन्य लागू नियमों एवं परिपत्रों के अनुपालन में बैठक की सूचना दिनांक 14.08.2021 में निर्धारित व्यवसाय के निष्पादन के लिए, कंपनी की 47वीं वार्षिक आम बैठक शनिवार, 25.09.2021 को दोपहर 12.00 बजे विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की जाएगी।

उपरोक्त परिपन्नों के अनुसार, एजीएम की सूचना के साथ वर्ष 2020-21 के लिए वार्षिक रिपोर्ट उन सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजी जाएगी जिनके ई-मेल पते 02.09.2021 को कंपनी / डिपॉजिटरी प्रतिभागी(याँ) के साथ पंजीकृत हैं।

वार्षिक आम बैठक की सूचना सीडीएसएल वेबसाइट www.evotingindia.com से देखी/डाउनलोड की जा सकती है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की घारा 91 और सेबी (सूचीयन बाध्यताएं एवं प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम, 2015 ("सूचीयन विनियम") के विनियम 42 के अनुसरण में कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर एवं शेयर टांसफर बक कथित वार्षिक आम बैठक के प्रयोजन हेत 23.09.2021 से 25.09.2021 तक (दोनों दिवस शामिल) बंद रहेंगे।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 जो कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2015 के द्वारा यथसंशोधित किया गया है और सूचीयन विनियम के विनियम 44 के अनुसरण में कंपनी अपने सदस्यों को वार्षिक आम बैठक में निष्पादित किये जाने वाले व्यवसाय के संबंध में सेन्टल ढिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड (सीडीएसएल) द्वारा प्रदत्त ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान कर रही है।

ई-वोटिंग की सुविधा 22.09.2021, सुबह 09:00 से 24.09.2021, शाम 5:00 बजे तक उपलब्ध होगी, उसके बाद ई-वोटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी।

इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से या एजीएम में मतदान करने की पात्रता निर्धारित करने की अंतिम तिथि 18.09.2021 है।

कोई भी व्यक्ति जो कंपनी के शेयर अधिग्रहित करता है और एजीएम की सूचना भेजे जाने के बाद कंपनी का सदस्य बनता है तथा कट-ऑफ तिथि को शेयर धारण करता है, वह helpdesk.evoting@cdslindia.com पर अनुरोध मेजकर लॉगइन आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। यदापि, यदि आप रिमोट ई-वोटिंग के लिए सीडीएसएल के साथ पहले से पंजीकृत हैं तो आप अपना बोट देने के लिए अपनी वर्तमान यूजर आईडी एवं पासवर्ड का उपयोग कर सकते हैं।

एजीएम में रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा उपलब्ध होगी। सदस्यगण जिन्होंने एजीएम से पूर्व रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट दे दिया है, वे भी एजीएम में शामिल हो सकते हैं लेकिन उन्हें एजीएम में दोबारा वोट देने की अनुमति नहीं होगी।

ई-वोटिंग से संबंधित किसी भी पूछताछ एवं परेशानी के मामले में आप www.evotingindia.com पर उपलब्ध सदस्यों के लिए अक्सर पछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्य) एवं सदस्यों के लिए ई-वोटिंग यूजर मैनुअल का अवलोकन कर सकते हैं या ई-मेल पर मेल भेज सकते हैं या श्री राकेश दल्वी, उप प्रबंधक, सीडीएसएल, ए विंग, 25वां तल, मैराथन युच्दैक्स, मफतलाल मिल कम्पाउंड, एन एम जोशी मार्ग, लोअर परेल (ईस्ट), मुम्बई-400013 से या फोन 022-23058542/43 पर या कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में सम्पर्क कर सकते हैं।

कृते ओमांश इंटरप्राइजेज तिमिटेड **इस्ता.** ∕ − सवविंदर सिंह निवेशक

स्थानः नई दिल्ली तिथि: 02.09.2021 DIN: 08057553

कॉन्टिनेंटल पेटोलियम्स लिमिटेड

पंजीकत कार्यालय: ए-2, उद्योग भवन के सामने, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपर-302005 (राजस्थान) CIN: L23201RJ1986PLC003704, फोन : 0141-2222232

ई: मेल: cs.conpetco@gmail.com, conpetco@gmail.com, वेबसाईट: www.contol.in

35वीं वार्षिक साधारण, ई-वोटिंग संबंधी सूचना एवं लेखा बही बंदीकरण के संबंध में सूचना

एतद् द्वारा सुचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) और उसी के अंतर्गत नियमों के प्रावधानों के अनुपालन में और संबंधित सेबी (सूची निर्धारण और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियमन, 2015 (सेबी (एलओडीआर) विनियमन'') के साथ कॉपरपोरेंट मामले के मंत्रालय द्वारा 8 अप्रैल 2020, 13 अप्रैल 2020, तथा 5 मई 2020 को जारी आम परिपन्न संख्या 14/2020, 17/2020 और 20/2020 (एमसीए परिपन्न) तथा भारतीय प्रतिभृति और विनियम बोर्ड (सेबी परिपन्न) के दिनांक 12 मई, 2020 परिपन्न संख्या सेवी /एवओ / सीएफडी /सीएमडी 1/सीआईआर / पी/2020/79 क अन्तर्गत निदेशक मंडल ने सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना, कंपनी की 35 वीं आम सभा (एजीएम) बधवार, 29 सितंबर, 2021 को दोपहर 02:00 बजे आयोजित करने का निर्णय लिया। बीडिया कॉन्फ्रोसिंग (बीसी)/ अन्य बीजवल मीन्स (ओएबीएम) सविधा द्वारा 35 वीं एजीएम सचना में दिए गए व्यवसायों को लेन-देन करने का निश्चित किया है । एमसीए परिपन्नों तथा संबी परिपन्न के अनसार, जिन सदस्यों के ई-मेल पते कम्पनी या रजिस्टार और शंबर टांसफर एजेन्ट या संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागियाँ (डीपी) के पास पंजीकृत है। उन्हें ई-वोटिंग के साथ वीसी / ओएबीएम सुविधा द्वारा 35 वीं एजीएम में शामिल होने के लिए लॉग इन विवरण के साथ 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्त वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट तथा 35 वीं एजीएम की सूचना गुरूवार, 02 सितम्बर, 2021 को ई-मेल के माध्यम से भेज दी गई है। यह सुचना कम्पनी की वेबसाइट www.contol.in स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.bseindia.com तथा सेन्ट्रल डिपोजिटरी सर्विसेज लिमिटेड की वेबसाइट www.evotingindia.com पर

कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम 2014 सेबी (एलओडीआर) विनियमन की विनियमन 44, इंस्टीट्यूट ऑफ कम्पनी सेक्रेटरीज ऑफ इण्डिया द्वारा जारी सचिवीय मानक-2 तथा एमसीए परिपत्रों के साथ पटित अधिनियम की धारा 108 के प्रावधानों के अनुपालन में 35 वीं एजीएम की सूचना में दिए गए संकल्पों पर इलेक्ट्रोनिक माध्यम से मतदान करने के लिए सीडीएसएल द्वारा सभी सदस्यों को रिमोट ई-वोटिंग (एजीएम से पूर्व) तथा ई-बोटिंग(एजीएम) के दौरान की सुविधा प्रदान की गई है।

रिमोट ई-बोटिंग रविवार, 26 सितम्बर 2021 प्रात: 9:00 भारतीय मानक समय को प्रारम्भ होगी तथा मंगलवार, 28 सिताबर, 2021 को साथ 5:00 बजे भारतीय मानक समय, को समाप्त होगी। इस अवधि के टीरान सदस्य अपना मतदान इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से कर सकते हैं। तद्उपरान्त रिमोट ई-वोटिंग मोड्यूल सीडीएसएल द्वारा मतदान करने के लिए निष्क्रिय कर दिया जाएगा ।

जिन सदस्यों ने एजीएम से पूर्व रिमोट ई-वोटिंग के द्वारा अपना मतदान कर दिया है। वे भी वीसी/ ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में शामिल हो सकते हैं, पर वे एजीएम के दौरान उपलब्ध ई-वोटिंग सुविधा द्वारा पुन: मदतान नहीं कर सकेंगे। एक बार सदस्य एक प्रस्ताव पर मतदान करते है तो सदस्य को बाद में इसे बदलने की अनुमति नहीं दी जायेगी। रिमोट ई-बोटिंग द्वारा एजीएम में शामिल होने तथा एजीएम के दौरान ई-बोटिंग के विस्तृत निर्देश 35 वीं एजीएम की सूचना में प्रदान किया गया है। श्री महेन्द्र प्रकाश खण्डेलवाल, कंपनी सचिव, जयपुर को ई-वोटिंग प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी हंग से आयोजित करने के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किया

सदस्यों को वोटिंग अधिकार बुधवार, 22 सितम्बर 2021 (कट-ऑफ तिथि) को कंपनी के पेड-अप इक्विटी शेयर पूंजी के अपने शेयरों के अनुपात में होंगे। एक व्यक्ति, जिसका नाम सदस्यों के रजिस्टार में या कट-ऑफ तिथि के अनुसार डिपॉजिटरीज द्वारा बनाए गए लाभकारी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज है वे ही केवल एजीएम में शामिल होने के लिए अधिकत होंगे, रिमोट ई-बोटिंग तथा एजीएम के दौरान ई-बोटिंग की संविधा उपलब्ध होगी। एक व्यक्ति जो कट-ऑफ तिथि को सदस्य नहीं है। इस नोटिस को केवल सूचना जानकारी के उद्देश्य से कोई व्यक्त, जो एजीएम की सचना को इलेक्टॉनिक प्रेषण की तिथि के बाद शेयरों का स्वामित्व रखता है वे 35 वीं

एजीएम की सचना में लिखे हुए निर्देशों का पालन कर अपना लॉग-इन आई डी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। अधवा हालांकि यदि वह रिमोट ई-वोटिंग के लिए सीडीएसएल के साथ पहले से ही पंजीकृत है तो वह अपना वर्तमान का यजर आईडी और पासवर्ड का प्रयोग कर मतदान कर सकता है। बंदि आपने कंपनी/ डीपी के साथ अपना ई-वोटिंग के लिए लॉग ईन विवरण प्राप्त कर सकते हैं।

डीमैट रूप सं

ई-मेल पते को पंजीकरण कराने के लिए कपया एक निवेदन बीटल फाईनेन्स एण्ड कम्प्यूटर सर्विसेज प्रा. लि., रजिस्टार तथा शेयर एजेंट को beetal@beetalfinancial.com पर अपना नाम, फोलियो संख्या, शेयर प्रमाण पत्र की स्कैन प्रति (फण्ट और बैक), पैन कार्ड, आधार कार्ड की स्वयं सत्यापित कपया अपने डीपी से संपर्क करें तथा डीपी की सलाइ अनुसार प्रक्रिया अपनाकर डीमेंट खाते में अपने

धारित किए हुए। ई-मेल पते को पंजीकत कराएं इसके साथ, अधिनियम की धारा 91 तथा इसके तत्वावधान में नियम और सेबी (एलओडीआर) विनियम के

विनियम 42 के प्रावधानों के अनुसार कम्पनी के सदस्यों के रजिस्टर और शंयर ट्रांसफर पुस्तक गुरूवार 23 सितम्बर, 2021 से बधवार 29 सितम्बर 2021 तक (दोनो दिवस सम्मिलित) 35 वीं एजीएम के कारण बंद एजीएम के समापन से 48 घंटों के भीतर अर्धात् 1 अक्टूबर, 2021 को या उससे पहले परिणाम घोषित किया

जाएगा और घोषित परिणाम समेकित पर्यवेशक की रिपोट के साथ कम्पनी की वेबसाइट www.contol.in और सीडीएसएल की बेबसाइट www.evotingindia.com पर डाला जाएगा। ई-बोटिंग सुविधा के संबंध में किसी भी पूछताछ के लिए www.evotingindia.com पर उपलब्ध Frequently

Asked Questions ("FAQs") देखें अधवा helpdesk.evoting@cdslindia.com पर निवेदन भेजे अधवा औ नितिन कुंदर (022-23058738) या श्री मेहबूब लखानी (022-23058543) या श्री राकेश दलवी (022-23058542) से संपर्क करें।

ई-बोटिंग सुविधा से जुडी हुई कोई भी समस्या के लिए श्री राकेश दलवी (सीडीएसएल), ए-विंग, 25वीं मंजिल, मैराधन प्रयुचरएक्स, मफतलाल मिल कंपाउण्ड्स, एनएम जोशी मार्ग, लोअर परेल (पूर्व), मुंबई-400013 या मेल helpdesk.evoting@cdslindia.com या 022-23058542/43 पर संपर्क करें

वास्ते- कॉन्टिनेंटल पेटोलियम्स लिमिटेड दिनांक : 02.09.2021 मदनलाल खण्डेलबाल (अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक) DIN: 00414717

अंटार्कटिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड

CIN: L29212DL1983PLC088911 जी-1, भतल, गगनदीप भवन, राजेंद्र पैलेस, नई दिल्ली डीएल 110008 ई-मेलः antarctic44@gmail.com

सुचना एतदद्वारा सचना दी जाती है कि कंपनी की वार्षिक आम बैठक नोटिस में उल्लिखित व्यवसायों पर लेन-देन करने के लिए गरुवार, 30 सितंबर, 2020 को गगनदीप बिल्डिंग, जी-1, भतल, राजेंद्र प्लेस, नई दिल्ली, दिल्ली 110008 में पर्वाह्न 11.00 बजे आयोजित की जाएगी।

ई-वोटिंग 27 सितंबर, 2021 को सुबह 9 बजे से शुरू होगी और 29 सितंबर, 2021 को शाम 5 बजे समार होगी। ई-वोटिंग की कट-ऑफ तिथि 23 सितंबर, 2021 है। बैलेट पेपर के माध्यम से वोटिंग की सुविधा केवल एजीएम में उपलब्ध कराई जाएगी। कंपनी ने श्री राहुल जैन, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, (सी.ओ.पी नंबर- 304099) को निष्पक्ष और पारदर्शी

तरीके से वोटिंग प्रक्रिया के संचालन के लिए संवीक्षक के रूप में कार्य करने के लिए नियक्त किया है। सदस्य का रजिस्टर और शेयर ट्रांसफर बुक 24 सितंबर, 2021 से 30 सितंबर, 2021 (दोनों दिन शामिल) तक बंद रहेगी।

कृते अंटार्कटिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड संजय जैन निदेशव

(पर्व में इक्किनॉक्स कंपनी लिमिटेड के रूप में जात) CIN -L01200GJ1980PLC093159

पंजीकृत कार्यालयः 322/ए, माधवपुरा गुंज बाजार, माधवपुरा, अहमदाबाद- 380004 कॉपोरेंट पंजीकृत कार्यालयः ए-105, तीसरी मंजिल, सेक्टर-63, गौतम बुद्ध नगर, नोएडा 201301 यूपी ई-मेलः organicipo@gmail.com; वेबसाइटः www.vitesseagro.in, टेली नं.: ०12०-4319744

होने वाली 41वीं वार्षिक आम बैठक से संबंधित जानकारी

अधिनियम, 2013, एमसीए परिपत्र दिनांक 5 मई 2020 के परिपत्रों के साथ पठित 8 अप्रैल 2020 और 13 अप्रेल 2020 (सामृहिक रूप से 'एमसीए परिपत्र' के रूप में जाना जाता है) और सेबी परिपत्र दिनांक 12 मई 2020 के लाग प्रावधानों की अनुपालना में 41वीं वार्षिक आम बैठक बलाने वाली सचना में निर्धारित व्यापार पर लेन देन करने के लिए सामान्य स्थान पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना वीडियो कॉन्फ्रेंस (वीसी)/अन्य ऑडियो विजअल माध्यम ('ओएवीएम') के माध्यम से बधवार. 29 सितंबर, 2021 को अपराह्न 1.00 बजे आयोजित होने वाली है।

उक्त एमसीए परिपत्रों और सेबी परिपत्र के अनुपालन में, 41वीं एजीएम की सुचना और वित्तीय वर्ष 2021 की वार्षिक रिपोर्ट की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियां उन सभी सदस्यों को भेजी जाएंगी जिनके ईमेल पते कंपनी/ डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ पंजीकृत हैं।

info@skylinerta.com पर अपने ईमेल पते और मोबाइल नंबर अस्थायी रूप से पंजीकृत कराने के लिए प्रस्तुत करें। 41वीं एजीएम की सूचना और वित्तीय वर्ष 2021 की वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट www.vitesseagro.in पर शेयर बाजार की वेबसाइट यानी बीएसई लिमिटेड www.bseindia.com पर भी उपलब्ध कराई जाएगी। कंपनी अपने सभी सदस्यों को 41वीं एजीएम की सूचना में निर्धारित सभी प्रस्तावों पर अपना वोट डालने के लिए रिमोट ई-वोटिंग सुविधा (रिमोट ई-वोटिंग) प्रदान कर रही है। इसके अतिरिक्त, कंपनी एजीएम

('ई-वोटिंग') के दौरान ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से मतदान की सुविधा प्रदान कर रही है। एजीएम में शामिल होने और रिमोट ई-वोटिंग/वोटिंग की विस्तृत प्रक्रिया 41वीं एजीएम की सचना में दी गई है वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने वाले सदस्यों की गणना कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के तहत कोरम के उद्देश्य से की जाएगी।

> रूप किशोर गोला निदेशक

** In the National General Industries Limited CIN: L74899DL1987PLC026617

Website: www.modisteel.com | Phone: 011-49872442, 19. PUBLIC NOTICE - 35TH ANNUAL GENERAL MEETING

the35thAnnual General Meeting ("AGM") of National General Industries Limited ("the Company") will be held through video conferencing (VC)/ other audio visual means (OAVM) in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the rules made thereunder, read with Ministry of Corporate Affairs (MCA) circular dated 13th January, 2021 read with circular dated 8th April, 2020, 13th April, 2020 &5th May, 2020 and Securities and Exchange Board of India (SEBI) vide its circular dated 12th May, 2020 (collectively referred to as Circulars), on Thursday, 30thSeptember, 2021at 1:30.P.M.to transact the business as set out in the Notice of AGM which will be sent in due course of time Members may further note that in pursuance of above stated circulars and in

furtherance of Go-Green initiative of the government, the Notice of the AGM and Annual Report for the financial year 2020-21, will be sent through remote e-voting facility to all its Members similar to earlier practices.

www.bseindia.com, in due course of time The Members can attend and participate in the AGM through VC/OAVM only Detailed instructions for joining the AGM will be provided in the Notice of AGM. Accordingly, please note that no provision has been made to attend and participate in the AGM of the Company in person, to ensure compliance with the directives issued by the government authorities with respect to Covid-19

In case the email address is not registered with the Company / Depository Participant, please follow the process of registering the same as mentioned

Physical Holding Send a request to Registrar and Transfer Agents of the Company, Skyline Financial Services PrivateLimited at info@skylinerta.comproviding Folio number, Name of the shareholder, scanned copy of the share certificate (Front and Back), PAN(Self attested scanned copy of PAN Card), AADHAR (Self attested scanned copy of Aadhar Card) for registering email address. Please send your bank detail with original cancelled

cheque to our RTA (i.e. Skyline Financial Services Private Limited, D-153A, 1st Floor, Okhla Industrial Area, Phase -I, New Delhi-110020 alongwith letter mentioning folio no. if not registered already.)

Please also update your bank detail with your DP for dividend payment by NACH if declared by company. Members may also note that if your e-mail id is registered with the Company/Depository Participant, the login credentials for remote e-voting / evoting during the AGM will be sent on the registered e-mail address along with

The above information is being issued for the information and benefit of all the members of the Company and is in compliance with the MCA Circular(s) and the SEBI Circular.

For National General IndustriesLtd

Place: New Delhi Date: 2nd September, 2021

बी.ओ:- एनएसी मनीमाजरा

Sd/ Vandana Gupta Company Secretary A-24012 ORACLE CREDIT LIMITED CIN: L65910DL1991PLC043281

Regd. Off: P-7, Green Park Extension, New Delhi-110016

E-mail: oracle_credit@yahoo.co.in, info@oraclecredit.co.in
Website: www.oraclecredit.co.in, Phone: 011- 26167775

NOTICE OF CONVENING 31ST ANNUAL GENERAL MEETING THROUGH VC / OAVM

Notice is hereby given that the 31st Annual General Meeting ("AGM") of Oracle Credit Limited ("the Company") will be held on Thursday, September 30, 2021 at 04.00 P.M. through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM") in compliance with applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("the Act") and Rules made thereunder and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, read with Ministry of Corporate Affairs (MCA) general circular dated April 8, 2020, April 13, 2020, May 5, 2020 and January 13, 2021 and SEBI Circulars dated May 12, 2020 and January 15, 2021 (collectively referred to as "relevant Circulars"), to transact the business as set out in the Notice of the AGM.

In compliance with the relevant circulars, the Notice of the AGM along with the Annual Report 2020-21, will be sent only by electronic mode to the members whose e-mail address is registered with the Company/Depository Participant(s). The aforesaid documents will also be available on the Company's website at www.oraclecredit.co.in and on the website of Stock Exchange i.e BSE Limited at

Manner of registering / updating email addresses by the Members: For shares held in physical form - Send a request to the Registrar and

Transfer Agents of the Company, Beetal Financial & Computer Services (P) Limited at beetalrta@gmail.com. For shares held in demat form - Please contact your Depository Participant (DP)

Manner of casting vote(s) through e-voting: Members will have an opportunity to cast their vote(s) on the business as set out

in the Notice of the AGM through remote e-voting facility. The facility for e-voting will also be made available at the AGM and Members attending the AGM who have not cast their vote(s) by remote e-voting will be able to vote at the AGM. The manner of casting vote through remote e-voting or e-voting during the AGM, by members holding shares in dematerialised mode, physical mode and for members who have not registered their email addresses, has been provided in detail in the Notice of the AGM.

> For Oracle Credit Limited Vineeta Gautam

Date: 02/09/2021 Place: New Delhi

Company Secretary एसपीएस इंटरनेशनल लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय:- प्लॉट नंबर एफ-6 और 7, FIT, सेक्टर 57, फरीदाबाद-121004 (हरियाणा) ई-मेल आईडी : info@spsintl.co.in | वेबसाइट : www.spsintl.co.in संपर्क नंबर: 9810568630 | CIN: L74140HR1993PLC031900 28वीं वार्षिक आम सभा, रिमोट ई-वोटिंग तथा पुस्तक बंद होने की सूचना क) अटठाईसवीं वार्षिक आम सभा से संबंधित जानकारी

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 तथा अन्य सर्क्युलर्स तिथि 8 अप्रैल, 2020 तथा 13 अप्रैल, 2020 के साथ पठित एमसीए सर्क्युलर तिथि 13 जनवरी, 2021 तथा 5 मई, 2020 के प्रावधानों के अनुपालन में तथा महामारी की वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए कम्पनी उपरोक्त सर्क्युलर्स के प्रावधानों के अनुसार विडियो कान्फ्रेंसिंग (''वीसी'') द्वारा वृधवार, 29 सितम्बर, 2021 को 03.00 बजे अप. में अट्ठाईसवी वार्षिक आम सभ आयोजित करने के लिये इच्छुक है जिसमें एजीएम की सूचना में वर्णित व्यवसायों को निष्पादित किया जायेगा। भौतिक पद्धति या डिमैटेरियलाइज्ड पद्धति में शेयर धारित करने वाले सदस्य सुचना में निर्दिष्ट साधारण व्यवसायं पर इलेक्ट्रानिक रूप से मतदान कर सकते हैं। जिन सदस्यों ने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना मतदान कर दिये हों वे भी सभा में उपस्थित हो सकते हैं लेकिन फिर से मतदान की अनमति उन्हें नहीं दी जायेगी। जबकि, रिमोट ई

ख) रिमोट ई-वोटिंग की जानकारी ई-वोटिंग के लिये कट-ऑफ तिथि वुधवार, 22 सितम्बर, 2021 है तथा जिस व्यक्ति का नाम कट ऑफ तिथि को सदस्यों के रजिस्टर अथवा डिपॉजिटरीज द्वारा प्रबंधित लाभभोगी स्वामियों के रजिस्टर में शामिल होगा, के हीं रिमोट ई-वोटिंग तथा एजीएम के दौरान ई-वोटिंग की सुविधा प्राप्त करने के लिये अधिकृत होंगे। रिमोट ई-वोटिंग रविवार, 26 सितम्बर, 2021 को 09.00 बजे पूर्वा. में शुरू होगी तथा मंगलवार, 28 सितम्बर, 2021 को 05.00 बजे अप. में बंद होगी। मतदान के लिये उक्त तिथि एवं समय के बाद ई-वोटिंग पद्धति वाधित कर दी जायेगी

वोटिंग सविधा वैकल्पिक है तथा कोई भी सदस्य विडियो कान्फ्रेंसिंग (''वीसी'') या अन्य ऑडियो विजअल

माध्यमों (''ओएवीएम'') द्वारा एजीएम में उपस्थित होने के समय ई-वोटिंग द्वारा अपना मतदान कर सकते हैं

सदस्य द्वारा किसी प्रस्ताव पर एक बार मतदान कर देने के बाद उन्हें उसमें परिवर्तन की अनुमित नहीं दी जायेगी। यदि कोई व्यक्ति एजीएम की सुचना के प्रेषण के बाद शेयर अर्जित करते हैं तथा कट-ऑफ तिथि को शेयर धारित करते हैं, वे helpdesk.evoting@cdsindia.com पर अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी एवं पास्वर्ड प्राप्त कर सकते हैं। एजीएम की सूचना कम्पनी की वेबसाईट www.spsintl.co.in तथा सीडीएसएल की वेबसाईट www.evotingindia.com पर उपलब्ध है। ई-वोटिंग से संबंधित किसी प्रश्नों या स्पष्टीकरणों के लिये सदस्य

("FAOs") तथा ई-वोटिंग मैन्युअल देखें अथवा helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ई-मेल करें। ग) पस्तक बंद होने की सचना एतदुद्वारा सुचित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 के प्रावधानों के अनुपालन में सदस्यों के रजिस्टर तथा कम्पनी की शेयर अंतरण पुस्तकें गुरुवार, 23 सितम्बर, 2021 से बुधवार, 29 सितम्बर, 2021

'हेल्प सेक्शन' के अंतर्गत www.evotingindia.com पर उपलब्ध frequently Asked Questions

(दोनों दिवस सहित) तक एजीएम के कारण बंद रहेंगे। ईमेल पते के पंजीकरण प्रक्रिया से संबंधित किसी भी पूछताछ के लिये शेयरधारक info@spsintl.co.in प सम्पर्क कर सकते हैं।

निदेशक मंडल के आदेश र सुरेन्द्र कुमार जैन

तिथि: 3 सितम्बर, 2021

स्थानः फरीदाबाद

VASTÜ वास्तु हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लि.

400015. महाराष्ट्र, सीआईएन : U65922MH2005PLC272501 Demand Notice Under Section 13(2) of Securitisation Act of 2002 जैसा कि, वास्तु हाउसिंग फाइनांस कॉर्पोरेशन लि., ने अपने प्रधान कार्यालय, मुम्बई के माध्यम से अधोलिखित

वृतिट 203 एवं 204, 2रा तल, 'ए' विंग, नवभारत एस्टेट, जकरिया बंडर रोड, सेवरी (वेस्ट), मुम्बई

ऋणधारकों/गारंटरों/मार्टगैजरों के लिये सूचना जारी किया जिन्होंने से उनके द्वारा प्राप्त साख सुविधाओं के मूलधन के पुनर्भुगतान तथा ब्याज के भूगतान में चूक की है तथा उक्त सुविधाऐं गैर प्रचालन परिसम्पत्तियों में परिवर्तत हो गई है। उक्त सुचना उन्हें उनके अंतिम ज्ञात पते पर वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13 (2) के अंतर्गत जारी की गई, लेकिन वह उन्हें सर्व हुए विना वापस लौट आई और इसलिये उन्हें उसके विषय में सार्वजनिक सुचना द्वारा सुचित

धारा 13(2) के अंतर्गत ऋणधारक का नाम माँग सुचना की तिथि गिरवी सम्पत्ति का विवरण तथा गणि ऋण खाता सं. श्री ब्रहम पाल (आवेदक) निवास का पताः खेवत नं. 685, खतोनी नं. 1331, 17.08.2021 भूपुर रोड, बराले वाला मंदिर के निकट, ग्राम 40.90,755/- (T. मस्तितिल नं. 34, किल्ला नं. 3 (7-7), 4 (7-13), 5/1 मुस्ततिल नं. टिगांव 95, फरीदाबाद, बल्लभगढ़, हरियाणा-चालिय लाख नखे हजार 34, किल्ला ने. 16/2 (5-0) 288 31.7.2021 को तथा (0-11), फरीदाबाद, हरियाणा-श्री किशन (सह-आवेदक) निवास का पताः भूपुर रोड, बराले वाला मंदिर अनुषांगिक खर्चे, 121003 लागत, चार्जेज आदि के साथ उक्त चौहदी: के निकट, ग्राम टिगांव 95, फरीदाबाद, बल्लभगढ, हरियाणा-121101 राशि पर अनुबंधित दर पर उत्तरः रोड दक्षिण: खाली प्लॉट एनपीए की तिथि से अप्रयक्त पूर्वः श्री ज्ञानी सुबदार पश्चिमः कृषि भूमि LP0000000034546

सूचना की स्थानापन्न सेवा के उपाय किये जा रहे हैं। उक्त ऋणधारकों, सह-ऋणधारकों एवं/ अथवा उनके गारन्टरों (जहां भी लागू हो) को सलाह दी जाती है कि इस सूचना के प्रकाशन के 60 दिनों के भीतर भगतान करें अथवा इस सचना की तिथि से 60 दिनों की समाप्ति के बाद वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पूर्निनर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के

प्रावधानों के अनुसार आगे की कार्रवाई की जायेगी। कुपया जान लें कि उक्त सचना धारा 13 (13) के अंतर्गत ऋणधारकों/गारन्टरों/मार्टगैजरों को सुचित करने के लिये भी यह सुचना है कि उक्त गिरवी सम्पत्ति की बिक्री/पट्टा/अन्तरण नहीं की जायेगी।

तिथि : 03.09.2021 स्थान : फरीदाबाद वास्तु हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरशन लि.

परिमंडल सस्त्र सेंटर चंडीगढ़

ई-नीलामी/ बिक्री सुचना

प्राधिकत प्राधिकारी

बजे से पूर्वाह

11.30 बजे तक

1.00.000/- %.

अंचल सस्त्र चंडीगढ़- गेट ने 1, प्रथम तल, सैक्टर 17-बी, चंडीगढ़, ई-मेल: zs8340@pnb.co.in, फोन: 0172-5040788-96 अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी हेतु सार्वजनिक

प्रतिभृति च्याज (प्रवर्तन) नियमों, 2002 के नियम 8(6) के प्रावधानों के पटित विशीय संपत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पून: निर्माण तथा प्रतिभृति व्याज के प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत अधल परिसंपत्तियों की विक्री के लिए ई-मीलामी विक्री सुचना। सामान्य जनता और कर्जदारों, रेहनकर्ताओं तथा गारंटरों को विशेष तौर पर एतद्द्वारा सुचना दी जाती है कि प्रतिभृतित ऋणदाता को रेहन/बंधिकृत/प्रभारित नीचे वर्णित चल/अचल संपत्ति, जिनका

रचनात्मक/भौतिक (जो भी लागू है) कथ्जा बैक/प्रतिभृतित ऋगदाता के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, उनकी विक्री संबंधित कर्जदारों तथा गारंटरों से बैंक/प्रतिभृतित ऋगदाता को नीचे तालिका में वर्णित देव इसके बकाया की वसनी के लिए वर्णित विधि को "जैसी है जहां है" तथा "जैसी है जो कछ है" और "जो कछ खड़ा मीजद है" के आधार पर की जाएगी। आरक्षित मूल्य तथा धरोहर राशि संबंधित संपत्तियों के अंतर्गत नीचे तालिका में वर्णित अनुसार जमा की जाएगी।

प्रतिभृतित परिसंपतियों की बिक्री की सारणी नीलामी लॉट संपतियों के सरफेसी अधिनियम 2002 की आरक्षित मृल्य कर्जदार का नाम अचल रहन संपत्तियों का विवरण धारा 13(2) के अंतर्गत हिमांड धरोहर राशि जमा की तिथि और स्वामियों/ रेजनकर्ताओं स्वामियों / रहनकर्ताओं नोटिस की तिथि और डिमांड (इंएमडी) एवं समय बैंक शास्त्रा का विवरण के नाम के नाम नोटिस 13(2) के अनुसार गणि चद्रिशील बोली कब्जे की प्रकृति राशि 1,20,00,000/- T. 21.09.2021 श्री विष्णु ओवरसीज प्रा. श्री विष्णु ओवस्सीज वाणिज्यिक संपत्ति (कार्यालय स्थान) धारक नंबर 812 13(2): 09.11.2017 को 12,00,000/- 布. प्रात: 10.30 104,27,87,056,10 石, + लिमिटेड. प्रा. लिमिटेड (आठवीं मंजिल), डी-मॉल, मैक्स अस्पताल के पास, बजे से पूर्वाह 01.10.2017 से प्रभावी ब्यान + 2.00,000/- 本. प्लॉट नंबर ए-1, नेताजी सभाष प्लेस, पीतमपुरा, नई बी.ओ.:- एलसीयी, चंडीगढ़ 11.30 बजे तक अन्य लागतें- वसुली यदि कोई है (नकद ऋण सुविधा) भौतिक कब्जे के अंतर्गत 13(2) नोटिस तिथि: 02.11.2019 1,28,00,000/- क. 08.10.2021 2. श्री अम्बे केमिकल मेससं पेलिकन ग्रैंड मोटल्स पंजीकृत संख्या 688 दिनांक 14.01.2013 के अनुसार प्रात: 10,30 (25,51,55,184.38 石. 12.80.000/- Tr. ट्रेडिंग कंपनी प्राइवेट डीएलएफ वाणिज्यिक संपत्ति संख्या डीएसएम-359 प्राइवेट लिमिटेड

प्रतीकात्मक कडते के अंतर्गत संपर्क व्यक्तिः पंजाब नेशनल बैंक, प्राधिकृत अधिकारीः श्री जसबीर सिंह मीलू, मुख्य प्रबंधक, अंचल सस्त्र, चंडीगढ़, मो.: 9915371772 और खाते का विवरण जिसमें ईएमडी के बाद शेष राशि आरटीजीएस/एनईएफटी और आईएफएससी कोड के माध्यम से जमा की जानी है: पंजाब नेशनल बैंक, बी.ओ.: सेक्टर 17-बी, खाता संख्या: 7988002200000033; IFSC Code: PUNB0798800

डीएलएफ टॉवर, शिव जी मार्ग, नई दिल्ली

ई-नीलामी बिक्की की निबंधन एवं शर्ते:- विक्री प्रतिभृति व्याज (प्रवर्तन) नियमों, 2002 तथा निम्नलिखित आगामी शर्तों में निर्धारित निवंधन एवं शर्तों के अधीन की जाएगी। (1) संपंतियां "जैसी है जहां है", "जैसी है जो कुछ है" और "बहां जो कुछ है" के आधार पर बेची जा रही है। (2) उपरोक्त सारणी में निर्दिष्ट प्रतिभृतित परिसंपत्तियों का विवरण प्राधिकृत अधिकारी की सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार वर्णित किया गया है, परंतु प्राधिकृत अधिकारी इस उद्घोषणा में किसी गलती/गलत ब्यान या चुक के लिए किसी भी तरीके से जवाबदेह नहीं होगा। (3) बिक्री दिनांक 21.09.2021 को क्रम सं.: 1 और 08.10.2021 को क्रम सं: 2 के लिए वेबसाइट https://mstcecommerce.com पर प्रदान किए गए ई-नीलामी मंच के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी हारा की जाएगी।(4) बिक्री की विस्तृत

निवंधन एवं ऋतों के लिए कृपवा www.ibapi.in, https://mstcecommerce.com/, https://eprocure.gov.in/epublish/app, व www.pnbindia.in को देखें। क्रम सं. 1 में आईपी के लिए सरफेसी अधिनियम, 2002 के नियम 8(6) के अंतर्गत साविधिक 15 दिनों की सूचना और

संपत्ति की नीलाम/बेच दी जाएगी और बकाया राशि, बदि कोई होगी, कर्जदार/गारंटर से ब्याज व लागत सहित वसुल को जाएगी। "नोट: आईपीज का निरीक्षण दिनांक 01.09.2021 से 20.09.2021/08.10.2021 पूर्वाह्व 10:00 बजे से शाम 4:00 बजे के बीच किया जा सकता है।

Date: September 2, 2021 www.readwhere.com

Place: Mumbai

इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड सीआईएन: U65922HR1998PLC042782 यंजीकृत कार्यात्मयः हवी मंजिल, प्लॉट नं. 15 संस्थागत क्षेत्र, सेक्टर 44, गुड़गांव, हरियाणा–122002

CIN:U74999DL1992PLC050472, ईमेल आईडी: info@sknindustries.in

स्थान: दिल्ली

दिनांक: 02.09.2021

स्थानः उत्तर प्रदेश

अधिनियम के संबंधित नियमों के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के अनसार, कंपनी एनएसडीएल के माध्यम से रिमोट ई-वोटिंग की सविधा प्रदान करेगी।

बोर्ड के आदेशानसा

DIN: 00528310

विटेस एग्रो लिमिटेड

वीडियो कॉन्फ्रेंस/अन्य ऑडियो-विजुअल मीन्स के माध्यम से आयोजित एतदुद्वारा सुचना दी जाती है कि कंपनी के सदस्यों की 41वीं वार्षिक आम बैठक ('एजीएम') कंपनी

जिन सदस्यों ने अपने ईमेल पते और मोबाइल नंबर पंजीकृत नहीं किए हैं, उनसे अनुरोध है कि वे कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट यानी स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को

कृते विटेस एग्रो लिमिटेड दिनांक: 01 सितंबर. 2021

FE Regd. Office: 3rd Floor, Surya Plaza, K-185/1, Sarai Julena, New Friends Colony, New Delhi-110025 | E-mail: cs@modisteel.net,

This is to inform that in view of the outbreak of Covid-19 pandemic.

electronic mode only to those members whose email addresses are registered with the Company / Depository Participant. The members attending the meeting through VC or OAVM shall be counted for the purpose of quorum under section 103 of the Act. The Company is also providing e-voting and The e-copy of the notice of the AGM along with the Annual Report for the FY 2020-21 of the Company will be available on the website of the Company at www.modisteel.comand also be available on the website of the BSE Limited at

Please contact your Depositary Participant (DP) and Demat Holding register your email address as per the process advised by

the notice of AGM. However members who have not registered their email-id can follow the procedure for registering e-mail id as mentioned above Members may note that the detailed procedure for remote e-voting / e-voting during the AGM is also mentioned in the notice of AGM.

Punjab national bank Together for the better

लिमिटेड

प्रतिभृतित ऋणदाता को जात ऋणभार का विवयरणः अजात

01.11.2019 से प्रभावी व्याज +

अन्य लागतें- वसली यदि कोई है)

क्रम सं. 2 में आईपी के लिए सरफेसी अधिनियम, 2002 के नियम 8(6) के अंतर्गत सीविधिक 30 दिनों की सूचना कर्जदार/गारंटर को ई-नीलामी तिथि से पूर्व ऊपर वर्णित अनुसार राशि के साथ तिथि तक ब्याज और अनुषंगी खर्चों की अदायगी के लिए एतदहारा अधिसूचित किया जाता है, जिसमें असफल रहने पर

प्राधिकत अधिकारी, पंजाब नेशनल बैंक

तहत कोरम की गणना के उददेश्य से गिना जायेगा।

संख्या के विवरण तथा पैन कार्ड की रव-प्रमाणित कॉपी भेजें। उनके लिए और उनकी तरफ से

